

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-2
संख्या-512/XV-2/07(04)2019
देहरादून: दिनांक 04 सितम्बर, 2019
31 अक्टूबर
कार्यालय ज्ञाप

सचिवालय में पत्रावलियों के ई-ऑफिस के माध्यम से संचरण के लिये इस व्यवस्था को स्थापित किये जाने के संबंध में विभागीय सूचनायें सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के स्तर पर संयुक्त सचिव, डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

2- डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के स्तर पर ई-ऑफिस प्रणाली की स्थापना हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण निम्नवत है। :-

नाम	पदनाम	दूरभाष/मो0	ई-मेल आई0डी0	वाट्सऐप नं0
श्रीमती मायावती ढकरियाल	संयुक्त सचिव, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	9927699940	JS.Sw68@gmail.com	9927699940

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या- /XV-2/2019 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.अपर सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
- 2.निजी सचिव, सचिव, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3.संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी (ई-ऑफिस), डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4.निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
- 5.गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(वी0एस0पुण्डीर)
उपसचिव।